



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 वैशाख 1934 (श0)
(सं0 पटना 169) पटना, बुधवार, 25 अप्रील 2012

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
24 अप्रील 2012

सं0 नि०प्रा०/नि० 1-01/2011/4358—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273, दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा तत्काल 334 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि प्रत्येक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में 1 (एक) अध्यक्ष, 1 (एक) मंत्री/ कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी कमिटी के 11 (ग्यारह) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है,

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा तत्काल प्रथम चरण में परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-2 में अंकित कुल 185 एवं द्वितीय चरण में परिशिष्ट-3 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार परिशिष्ट-4 में अंकित कुल 149 मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के अध्यक्ष, मंत्री/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु क्रमशः दिनांक 22.05.2012 (मंगलवार) तथा दिनांक 03.06.2012 (रविवार) की तिथियाँ नियत करता है तथा संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपनी अधिसूचना संख्या 600 दिनांक 15 मार्च, 2012 द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ-तिथि 31.12.2011 निर्धारित की गयी है।

दोनों चरणों के लिए संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 28.04.2012 को संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-5) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

दोनों चरणों के लिए मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक होगा। यह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं०) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति दिनांक 22.05.2012 तथा 03.06.2012 को मतदान समाप्ति के पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 4-5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 23.05.2012 और दिनांक 04.06.2012 को सुबह 8:00 बजे से शुरू की जाय। दिनांक 22.05.2012/ दिनांक 03.06.2012 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीधे मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 24.05.2012/ 04.06.2012 को मतगणना कराये जाने की स्थिति में वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-1

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012

निर्वाचन कार्यक्रम

प्रथम चरण

(i)	प्राधिकार की अधिसूचना	-	24.04.2012
(ii)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	28.04.2012 (शनिवार)
(iii)	नामांकन की तिथि	-	12.05.2012 (शनिवार)
(iv)	संवीक्षा की तिथि	-	14.05.2012 (सोमवार)
(v)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	-	15.05.2012 (मंगलवार)
(vi)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	22.05.2012 (मंगलवार)
(vii)	मतगणना	-	22.05.2012 की संध्या / 23.05.2012 (बुधवार)

परिशिष्ट-2

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012

प्रथम चरण का निर्वाचन

क्रमांक	जिला	प्रखंडों का नाम जहां मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं
1	रोहतास	1. करगहर, 2. काराकाट, 3. कोचस, 4. शिवसागर, 5. दिनारा, 6. तिलौथू, 7. रोहतास, 8. राजपुर, 9. संझौली, 10. नौहट्टा, 11. अकोढीगोला
2	कैमूर	1. भगवानपुर, 2. रामपुर, 3. चैनपुर, 4. चांद, 5. मोहनियां, 6. दुर्गावती, 7. कुदरा
3	जहानाबाद	1. घोसी, 2. काको
4	नवादा	1. नारदीगंज, 2. रोह, 3. रजौली
5	अरवल	1. अरवल
6	वैशाली	1. पटेढी बेलसर, 2. वैशाली, 3. भगवानपुर, 4. गोरौल, 5. महुआ, 6. जन्दाहा, 7. पातेपुर, 8. चेहराकलां, 9. राजापाकर, 10. सहदेई बुजुर्ग, 11. देसरी, 12. बिदुपुर, 13. राघोपुर
7	पश्चिम चंपारण	1. नौतन, 2. योगापट्टी, 3. सिकटा, 4. मैनाटांड, 5. लौरिया, 6. भितहां, 7. मधुबनी
8	सीतामढ़ी	1. परसौनी, 2. सुप्पी, 3. रीगा, 4. मेजरगंज, 5. चरौत, 6. पुपरी, 7. नानपुर, 8. बोखरा, 9. बाजपट्टी, 10. बथनाहा, 11. सुरसंड, 12. परिहार, 13. सोनवर्षा, 14. रून्नीसैदपुर
9	सहरसा	1. सत्तर कटैया, 2. सौरबाजार, 3. नवहट्टा, 4. महिषी, 5. सिमरी बख्खितारपुर, 6. सलखुआ, 7. बलमा इटहरी
10	सुपौल	1. किशनपुर, 2. सरायगढ़ भपटियाही, 3. त्रिवेणीगंज, 4. छातापुर
11	मधेपुरा	1. सिंहेश्वर, 2. कुमारखंड, 3. ग्वालापाड़ा, 4. उदाकिशनगंज, 5. आजमनगर, 6. चौसा, 7. पुरैनी
12	पूर्णियां	1. पूर्णियां पूर्व, 2. जलालगढ़, 3. के.नगर, 4. डगरूआ, 5. अमौर, 6. धमदाहा, 7. भवानीपुर
13	किशनगंज	1. टेढ़ागाछी, 2. कोचाधामन, 3. दिघलबैंक, 4. पोठिया
14	अररिया	1. जौकीहाट, 2. पलासी, 3. नरपतगंज
15	कटिहार	1. कुरसेला, 2. समैली, 3. कटिहार, 4. दंडखोरा, 5. कोढ़ा, 6. मनसाही, 7. आजमनगर, 8. बलरामपुर
16	समस्तीपुर	1. विद्यापतिनगर, 2. विभूतिपुर, 3. शिवाजीनगर, 4. कल्याणपुर, 5. वारिसनगर, 6. विथान, 7. खानपुर, 8. उजियारपुर

परिशिष्ट-2

क्रमांक	जिला	प्रखंडों का नाम जहां मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं
17	मधुबनी	1. पंडौल, 2. बाबूबरही, 3. राजनगर, 4. मधेपुर, 5. लखनौर, 6. अंधराठाढ़ी, 7. फुलपरास, 8. खुटौना, 9. लौकही, 10. खजौली, 11. कलुआही, 12. लदनियां, 13. बासोपट्टी
18	सारण	1. अमनौर, 2. तरैया, 3. इसुआपुर, 4. मशरक, 5. पानापुर, 6. दरियापुर, 7. परसा, 8. मकर, 9. गड़खा, 10. बनियापुर, 11. लहलादपुर, 12. मांझी, 13. एकमा, 14. जलालपुर, 15. नगरा
19	सिवान	1. भगवानपुर, 2. गोरियाकोठी, 3. दरौंधा, 4. गुढ़नी, 5. आन्दर, 6. पचरूखी, 7. हसनपुरा
20	गोपालगंज	1. कुचायकोट, 2. थावे, 3. मांझा, 4. सिंघवलिया, 5. पंचदेवरी, 6. फुलवरिया
21	बांका	1. चान्दन, 2. कटोरिया, 3. रजौन, 4. धौरैया, 5. बाराहाट, 6. बेलहर, 7. फुल्लीडुमर, 8. शंभुगंज
22	मुंगेर	1. तारापुर, 2. असरगंज, 3. संग्रामपुर, 4. टेटियाम्बर, 5. बरियारपुर, 6. मुंगेर सदर, 7. धरहरा
23	शेखपुरा	1. घाटकुसुम्भा, 2. अरियरी, 3. चेवाड़ा, 4. शेखोपुर सराय
24	लखीसराय	1. सूर्यगढ़ा, 2. रामगढ़ चौक, 3. हलसी
25	जमुई	1. चकाई, 2. सोनो, 3. खैरा, 4. लक्ष्मीपुर
26	खगड़िया	1. चौथम, 2. मानसी, 3. अलौली
27	बेगूसराय	1. चेरिया बरियारपुर, 2. खोदावन्दपुर, 3. छौड़ाही, 4. भगवानपुर, 5. वीरपुर, 6. साहेबपुर कमाल, 7. डंडारी, 8. बेगूसराय, 9. बरौनी

आदेश से,
 एन0 एस0 माधवन,
 मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-3

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012

निर्वाचन कार्यक्रम

द्वितीय चरण

(i)	प्राधिकार की अधिसूचना	-	24.04.2012
(ii)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	28.04.2012 (शनिवार)
(iii)	नामांकन की तिथि	-	23.05.2012 (बुधवार)
(iv)	संवीक्षा की तिथि	-	24.05.2012 (गुरुवार)
(v)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	-	25.05.2012 (शुक्रवार)
(vi)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	03.06.2012 (रविवार)
(vii)	मतगणना	-	03.06.2012 की संध्या / 04.06.2012 (सोमवार)

परिशिष्ट-4

मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012

द्वितीय चरण का निर्वाचन

क्रमांक	जिला	प्रखंडों का नाम जहां मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं
1	पटना	1. पटना सदर, 2. फुलवारी शरीफ, 3. दनियावां, 4. पुनपुन, 5. बख्तियारपुर, 6. अथमलगोला, 7. बेलछी, 8. मोकामा, 9. पण्डारक
2	नालन्दा	1. बिहारशरीफ, 2. रहुई, 3. नूरसराय, 4. हरनौत, 5. अस्थावां, 6. बिन्द, 7. सिलाव, 8. गिरियक, 9. हिलसा, 10. एकंगरसराय, 11. परवलपुर, 12. चंडी, 13. थरथरी, 14. नगरनौसा, 15. इस्लामपुर
3	भोजपुर	1. आरा, 2. बड़हरा, 3. शाहपुर, 4. संदेश, 5. चरपोखरी, 6. उदवन्तनगर, 7. पीरो, 8. तरारी
4	बक्सर	1. बक्सर, 2. राजपुर, 3. डुमरांव
5	रोहतास	1. विक्रमगंज, 2. सासाराम, 3. नोखा
6	कैमूर	1. भभुआ
7	गया	1. गुरूआ, 2. शेरघाटी, 3. डोभी, 4. बाराचट्टी, 5. बोधगया, 6. टेकारी, 7. कोंच, 8. नीमचक बथानी, 9. नगर, 10. बेलागंज, 11. मानपुर, 12. वजीरगंज
8	जहानाबाद	1. मखदुमपुर
9	औरंगाबाद	1. नवीनगर, 2. देव
10	नवादा	1. हिसुआ, 2. वारसलीगंज
11	मुजफ्फरपुर	1. सकरा, 2. मुरौल, 3. बंदरा, 4. बोचहां, 5. कुदनी, 6. मुशहरी, 7. कांटी, 8. मरवन, 9. पारू, 10. सरैया, 11. मोतीपुर, 12. साहेबगंज, 13. गायघाट, 14. कटरा, 15. औराई, 16. मीनापुर
12	वैशाली	1. हाजीपुर, 2. लालगंज, 3. महनार
13	पश्चिम चंपारण	1. बेतिया, 2. चनपटिया, 3. नरकटियागंज, 4. बगहा-I, 5. बगहा-II, 6. रामनगर
14	सीतामढ़ी	1. बेलसंड, 2. बैरगनिया, 3. डुमरा
15	शिवहर	1. पुरनहिया
16	सहरसा	1. कहरा
17	सुपौल	1. बसन्तपुर
18	मधेपुरा	1. मधेपुरा, 2. मुरलीगंज
19	पूर्णियां	1. कसबा, 2. बनमनखी
20	किशनगंज	1. बहादुरगंज, 2. किशनगंज

परिशिष्ट-4

क्रमांक	जिला	प्रखंडों का नाम जहां मत्स्यजीवी सहयोग समितियां अवस्थित हैं
21	अररिया	1. फारबिसगंज
22	कटिहार	1. मनिहारी
23	दरभंगा	1. दरभंगा, 2. बहादुरपुर, 3. सिंघवाड़ा, 4. जाले, 5. बहेड़ी, 6. केवटी, 7. ताराडीह, 8. मनीगाछी, 9. हनुमाननगर, 10. हायाघाट, 11. बेनीपुर, 12. अलीपुर, 13. बिरौल, 14. घनश्यामपुर, 15. कीरतपुर, 16. गोड़ा बौराम, 17. कुशेश्वरस्थान, 18. कुशेश्वरस्थान (पूर्वी)
24	समस्तीपुर	1. समस्तीपुर, 2. दलसिंहसराय, 3. रोसड़ा
25	मधुबनी	1. रहिका, 2. जयनगर, 3. मधवापुर, 4. बेनीपट्टी, 5. हरलाखी
26	सारण	1. मढ़ौरा, 2. दिघवारा, 3. छपरा सदर, 4. रिविलगंज, 5. महाराजगंज, 6. मैरवा, 7. सिवान सदर
27	गोपालगंज	1. गोपालगंज, 2. बरौली
28	भागलपुर	1. सुल्तानगंज, 2. नाथनगर, 3. गोराडीह, 4. सबौर, 5. सन्हौला, 6. पीरपैती, 7. नारायणपुर, 8. बिहपुर, 9. खरीक, 10. नवगछिया
29	बांका	1. अमरपुर
30	मुंगेर	1. खड़गपुर, 2. जमालपुर
31	शेखपुरा	1. शेखपुरा, 2. बरबीघा
32	जमुई	1. जमुई, 2. झाझा
33	खगड़िया	1. खगड़िया, 2. गोगरी

आदेश से,
एन0 एस0 माधवन,
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

परिशिष्ट-5
मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन
प्रपत्र-1
सूचना का प्रपत्र

जिला, प्रखंड.....के मत्स्यजीवी सहयोग समितिके अध्यक्ष, मंत्री/कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ:-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	1 (अनारक्षित)
मंत्री / कोषाध्यक्ष	1 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	11 (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता

(स्थान का नाम)

(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

(स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....तकबजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।

(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 2 बजे के पूर्व तकपर

(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी का तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद प्रतीक का विधिमान्य रूप से नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न से.....बजे अपराह्न तक होगा।

(vii) मतगणना दिनांक.....कोबजे से.....पर की जायेगी।

(स्थान का नाम)

स्थान-
तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 169-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>